

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट –जनपद शाहजहांपुर दिनांक 20.09.2022

थाना बण्डा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 02 करोड 61 लाख रुपये कीमत की फाइन क्वालिटी की 02 किलो 610 ग्राम अफीम के साथ 02 अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद मे मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री पंकज पन्त, क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण मे थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 20.09.2022 की रात्रि को श्री मनोज कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के नेतृत्व मे थाना बण्डा की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 00.40 बजे **मकसूदापुर पुल से 02 मादक पदार्थ तस्करो 1.जितेन्द्र 2. रामकरन** को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त के कब्जे से 01 किलो 470 ग्राम अफीम तथा अभियुक्त रामकरन उपरोक्त के कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम अफीम बरामद हुई । इस प्रकार उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 किलो 610 ग्राम नाजायाज अफीम बरामद हुई। अभियुक्तों के विरुद्ध माल बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समय-

मकसूदापुर पुल से, दिनांक 20.09.2022 व समय 00.40 बजे रात्रि मे

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.जितेन्द्र पुत्र सोवरन वर्मा नि0 ग्राम बडा गांव थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
- 2.रामकरन पुत्र बालकराम नि0 शेरापुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 769/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम जितेन्द्र थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 2.मु0अ0सं0 770/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रामकरन थाना बण्डा शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 353/2022 धारा 323/427/504/506 भादवि बनाम जितेन्द्र थाना पुवायां शाहजहाँपुर
- 2.मु0अ0सं0 280/2020 धारा 279/429 भादवि बनाम जितेन्द्र थाना बण्डा शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 610 फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 02 करोड 61 लाख रुपये है ।)

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ मे बताया कि साहब हम झारखण्ड से सस्ते दामो पर अफीम लेकर आते है तथा शाहजहाँपुर, बदायूँ, बरेली व आसपास के जनपदों मे महंगे दामों पर बेच देते है । पूछताछ के दौरान कुछ अहम तथ्य प्रकाश मे आये है तथा तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. निरीक्षक श्री पवन कुमार पाण्डेय थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3. का प्रेमपाल सिंह 1859 0थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4. का मोनू चौधरी 745 0थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5. का विशाल कुमार 2857 0थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
6. कामनीष देशवाल 1873 0 थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
7. कालक्ष्मण राघव 2679 0 थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

8. का 01859 0 थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

